



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229]
No. 229]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 1979/आषाढ़ 27, 1901
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1979/ASADHA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1979

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 445 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. अधिसूचना सं. 46/78-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 ।
2. अधिसूचना सं. 50/78-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 ।
3. अधिसूचना सं. 102/78-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 1978 ।

[232/79-के. उ. श. /फा. सं. 335/5/79-टी. आर. यू.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th July, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. Notification No. 46/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978.
2. Notification No. 50/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978.
3. Notification No. 102/78-Central Excises, dated the 27th April, 1978.

[232/79-CE/F. No. 335/5/79-TRU]

सा. का. नि. 446 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 11 घ के अंतर्गत

आने वाले सभी उत्पाद शुल्क को माल उक्त अधिनियम के अधीन
उस पर उपर्युक्त समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[231/79-के. उ. शू./फा. सं. 335/5/79-टी. आर. यू.]

टी. आर. रुस्तगी, अवर सचिव

G.S.R. 446 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all excisable goods falling under Item No. 11D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Act.

[231/79-CE/F. No. 335/5/79-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.